

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्रा

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-12.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ-308-05-01-2010, दिनांक 17 जून 2013 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित सेवा को विलोपित करते हुए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएं

| सेवा क्र. | सेवाएं   | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम             | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम                  | प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा | द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम |
|-----------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| (1)       | (2)  | (3)                                   | (4)                                  | (5)  | (6)   | (7)                              |
| 12.1      | राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रु. 2.00 लाख तक के प्रकरण जिला स्तर से स्वीकृत किया जाना. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. | 10 कार्य दिवस                        | संभागीय संयुक्त मंचालक एवं स्वास्थ्य सेवाएं. | 15 कार्य दिवस                                   | आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं.        |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.